

SUMMER HOLIDAY HOMEWORK 25-26 CLASS- 4

English- 1. Make a beautifully decorated photo frame (A4 size, you can use waste cardboard box, cover it with A4 sheet, decorate it with beads and glass) Write on it 5 commandments from diary page number 12.

2. Practice 5 pages Handwriting in English grammar notebook.

3. Revise work done in class.

4. Do comprehension

a) The Ship of the Desert

b) You Can If You Think You Can

Hindi- 1) अपनी पाठ्य पुस्तक 'वाटिका' से पांच पेज सुलेख हिंदी रिवीजन कॉपी में लिखे।

2) 'कोई किसी से कम नहीं' पाठ के आधार पर पांच फल बनाकर रंग भरो तथा प्रत्येक फल से होने वाले फायदे दो-दो पंक्तियों में लिखो (हिंदी साहित्य की कॉपी में)।

रचनात्मक कार्य

1) File sheet के plain side पर पर्यावरण का चित्र बनाकर तथा Ruled side पर 'हम अपने पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं इसे हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इस पर एक अनुच्छेद लखो।

2. पेज 106 पर दिए गए चित्र-1 या चित्र-3 को देखकर उसका वर्णन करते हुए पांच वाक्य फाइनल सीट पर लिखो।

Maths- Rapid fire - Do pages 4 to 9,13,14

Activity 1 - Draw the clocks to show the following time-

(a) 3:15

(b) 4:50

(c) 6:30

(d) 12 o'clock

Use Roman numerals on the dial of the clock to represent the above time.

Use **A-4** sheet for the activity.

Activity 2 - Learn and write the multiplication tables from 11 to 20 on a **A-4** sheet.

Science- Project 1: Draw diagrams of the following:

Picture 2.1 (page 16)

Picture 2.2 (page 17)

Picture 2.3 (page 17)

Complete these diagrams in your comment sheet.

Project 2: Role of microbes in human welfare

Paste at least five pictures of products obtained from bacteria and fungi in comment sheets also mention the name of the microbes.

Project 3: Draw the flow chart of Exercise H given in your science book on page number 32.

(Complete the flow chart accurately on comment sheets)

Project 4: Exercise Completion

Complete Exercise I given on page number 29 in your comment sheet.

Answer all questions carefully.

Note: 1. Make all projects in comment sheets and present it in a folder.

2. Read and learn the Chapters taught.

Social- 1. On the physical map of India, mark and label all the physical features and paste it in your Social notebook.

2. Complete the given worksheet and paste it in your Social notebook.

3. Learn and revise all the work done in the class.



Physical Features of India

Fill in the blanks-

1. The _____ mountain range is the highest in India.
2. The _____ river is considered sacred in India.
3. The _____ desert is located in western India.
4. The Deccan Plateau is a _____ region in southern India.
5. The Western Ghats mountain range runs along the _____ coast of India.
6. The Himalayas protect India from _____ winds.
7. The _____ river flows through the city of Varanasi.
8. The _____ island group is located in the Bay of Bengal.
9. The Eastern Ghats mountain range runs along the _____ coast of India.
10. The _____ river is the longest river in India.

11. The Thar Desert is also known as the _____ Desert.
12. 12. The Himalayas are a source of many _____ in India.
13. The Deccan Plateau is bounded by the _____ Ghats in the west.
14. The _____ plain is formed by the Ganga river.
15. India has a diverse range of _____ features.

Help box cold, Thar , Ganga, plateau, western, Andaman
and Nicobar, Ganga, Himalayan, physical, rivers,
Gangetic , Great Indian , Ganga, eastern, Western

Computer- 1. Collect 5- pictures of various computer storage devices from newspaper, magazines, etc. Create a collage using them and write a brief description about each device.

2. Write the codes for the following words: Take reference of Codes from Text book.

a) SAND:

b) BLOW:

c) CLUE:

d) VAST:

Note: All the work should be done in Computer Notebook only.